

**फॉर्म एनएल-16-अग्रिम और अन्य संपत्ति अनुसूची**  
**अग्रिम व अन्य परिसंपत्तियाँ**

|    | विवरण                                                                                   | 30 जून 2020 तक<br>(₹ '000) | 30 जून 2019 तक<br>(₹ '000) |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|----------------------------|
|    | <b>अग्रिम</b>                                                                           |                            |                            |
| 1  | सीडिंग कंपनियों के पास जमा प्रारक्षित निधियाँ                                           | -                          | -                          |
| 2  | निवेशों के लिए आवेदन राशि                                                               | -                          | -                          |
| 3  | समय पूर्व भुगतान                                                                        | 11,43,46.80                | 7,02,85.04                 |
| 4  | निदेशकों को अग्रिम                                                                      | -                          | -                          |
| 5  | प्रदत्त अग्रिम कर (कराधान के लिए शुद्ध प्रावधान)                                        | 238,14,34.39               | 132,44,33.16               |
| 6  | बैंकों को खाते में दावा भुगतान<br>घटाएँ: सदिग्ध वसूली का प्रावधान                       | -                          | -                          |
| 7  | कर्मचारियों को अग्रिम                                                                   | 27,85,48.65                | 27,84,26.49                |
| 8  | व्ययों के लिए अग्रिम                                                                    | 18,08,52.09                | 23,79,25.76                |
|    | <b>कुल (क)</b>                                                                          | <b>295,51,81.93</b>        | <b>191,10,70.45</b>        |
|    | <b>अन्य परिसंपत्तियाँ</b>                                                               |                            |                            |
| 1  | निवेशों पर प्रौद्भूत आय                                                                 | 301,11,65.58               | 304,65,45.32               |
| 2  | बकाया प्रीमियम                                                                          | -                          | -                          |
| 3  | एजेंटों के शेष                                                                          | -                          | -                          |
| 4  | विदेशी एजेंसियों के शेष                                                                 | -                          | -                          |
| 5  | बीमा क्लेमों को करने वाली (पुनर्बीमा सहित) अन इकाइयों से देय गौण/धारक<br>इकाइयों से देय | 242,91,69.85               | 271,25,02.23               |
| 6  | सहायक कंपनियों/होलिंग से बकाया                                                          | -                          | -                          |
| 7  | भारतीय रिजर्व बैंक के पास जमा (बीमा अधिनियम 1938 की धारा 7 के अनुरूप)                   | -                          | -                          |
| 8  | आवास ऋण पर प्रौद्भूत ब्याज                                                              | 2,09,08.39                 | 2,46,01.33                 |
| 9  | विविध देनदार-                                                                           |                            |                            |
|    | मानक परिसंपत्तियाँ                                                                      |                            |                            |
|    | घटाएँ : मानक परिसंपत्तियों के लिए प्रावधान                                              | 1,25,91.20                 | -                          |
|    |                                                                                         | 50.37                      | -                          |
|    | <b>( I )</b>                                                                            | <b>1,25,40.83</b>          | <b>-</b>                   |
|    | निम्न मानक परिसंपत्तियाँ                                                                | -                          | -                          |
|    | घटाएँ : निम्न मानक परिसंपत्तियों के लिए प्रावधान                                        | -                          | -                          |
|    | <b>( II )</b>                                                                           | <b>-</b>                   | <b>-</b>                   |
|    | सदिग्ध परिसंपत्तियाँ                                                                    | 7,04,26.80                 | 7,04,26.80                 |
|    | घटाएँ : सदिग्ध परिसंपत्तियों के लिए प्रावधान                                            | 7,04,26.80                 | 7,04,26.80                 |
|    | <b>( III )</b>                                                                          | <b>-</b>                   | <b>-</b>                   |
|    | <b>( I + II + III )</b>                                                                 | <b>1,25,40.83</b>          | <b>-</b>                   |
| 10 | अन्यों से वसूली योग्य राशि                                                              | 24,43,27.81                | 20,23,81.27                |
|    | घटाएँ : सदिग्ध वसूली के लिए प्रावधान                                                    | 94,71.30                   | 94,71.30                   |
|    |                                                                                         | 23,48,56.51                | 19,29,09.97                |
| 11 | विविध जमाएँ                                                                             | 39,93,28.24                | 34,15,82.92                |
|    | घटाएँ : सदिग्ध ऋणों के लिए प्रावधान                                                     | -                          | -                          |
|    |                                                                                         | 39,93,28.24                | 34,15,82.92                |
| 12 | पॉलिसीधारकों की परिसंपत्तियों हेतु अदावा राशि                                           | 1,74,10.96                 | 1,65,43.66                 |
| 13 | भारत सरकार की ओर से ए टी आई भागीदारी                                                    | 81,23,31.00                | 81,23,31.00                |
|    | <b>कुल (ख)</b>                                                                          | <b>693,77,11.36</b>        | <b>714,70,16.43</b>        |
|    | <b>कुल (क+ख)</b>                                                                        | <b>989,28,93.29</b>        | <b>905,80,86.88</b>        |